



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2011/पौष 21, 1932

No. 44]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2011/PAUSA 21, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2011

**का.आ. 45(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2061(अ), तारीख 23 अगस्त, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ए (एक्सटेंशन) के 0.000 कि.मी. से 38.000 कि.मी. (कांडला-चन्द्रोडा सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 8 अक्टूबर, 2010 को "कच्छ मित्र" और "गुजरात वैभव", दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ए (विस्तारण) के 0.000 कि.मी. से 38.000 कि.मी तक (कंडला-मुंद्रा-चान्द्रोडा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1 गांधीधाम	(1) मीठीरोहर	243/3	निजी	बिनखेती	0.5976	भानुबेन रतिलाल मोरबीया वर्षाबेन अरविदकुमार जोषी दश्राबेन संजय शाह धीरेन रतीलाल मोरबीया विरेन रतीलाल मोरबीया
				228	निजी	बिनखेती	0.6272	कीरती मनजी पटेल
				232/4	निजी	बिनखेती	0.1844	जखु बीजल वीरडा मोहमदअली गुलामअली खोजा
				232/3	निजी	बिनखेती	0.1958	जखु बीजल वीरडा मोहमदअली गुलामअली खोजा
				232/2	निजी	बिनखेती	0.1836	जखु बीजल वीरडा मोहमदअली गुलामअली खोजा
			(2) गलपादर	129/23	निजी	बिनखेती	0.8202	वी. स्पान पाइप एवं कंस्ट्रक्शन
				26/5	निजी	वाडानी जमीन	0.6339	नरेन्द्रसिंह हेतुभा जाडेजा
				29/1	निजी	खेती	0.0602	मीठु उर्फ देवजी धरमषी
				29/2	निजी	खेती	0.1489	(1) बायंमबा उमेदसंग जाडेजा (2) बलदेव सिंह उमेदसंग जाडेजा (3) दिलीपसिंह उमेदसंग जाडेजा (4) जयेन्द्रसिंह उमेदसंग जाडेजा
				83	निजी	खेती	0.3489	ढिला अरजण जशा
				88	निजी	खेती	0.3662	ढिला अरजण जशा
				89	निजी	खेती	0.3192	(1) ढिला गोपालभाई जशाभाई
				93	निजी	खेती	0.5634	(1) विधवा मोंधीबेन रामजी (2) सखीबेन रामजी (3) लखीबेन रामजी (4) बाबुभाई रामजी (5) देवीबेन रामजी (6) हीरालाल रामजी (7) तीकम रामजी (8) हरेश रामजी (9) देवराज रामजी (10) कानजी रामजी
				92	निजी	बिनखेती	0.3124	हरेशभाई गोपालभाई ढीला
				82	निजी	खेती	0.0227	रूडा काना विरडा
				98/3	निजी	खेती	0.5017	(1) अशोक चमनलाल शर्मा (2) विनोद चमनलाल शर्मा (3) परमानंदजी चमनलाल शर्मा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				98/P	निजी	खेती	0.0197	अशोकभाई सुंदरदास अगीया
				127/3	निजी	खेती	0.1642	रवाभाई चमन जमनाबाई मगाभाई मजमु
				129/19	निजी	खेती	0.0660	कुमार बुधरमल
				129/18	निजी	खेती	0.1931	रोहीत मोरारजी शाह कुमार बुधरमल
				129/P	निजी	खेती	0.4452	रोहीत मोरारजी शाह
				129/P	निजी	खेती	0.3215	लखु काना विरडा
				129/P	निजी	खेती	0.3684	धना काना विरडा
				127/2	निजी	खेती	0.1079	आहीर हमेश धनाभाई
				127/1	निजी	खेती	0.3398	(1) जाडेजा प्रविणसिंह अभेसिंह (2) जाडेजा रणजीतसिंह अभेसिंह
				26/2	निजी	खेती	0.0490	विशालसिंह दिलीपसिंह जाडेजा
				25/2	निजी	खेती	0.2346	प्रवीनकुमार शांतीलाल शुनीलकुमार शांतीलाल
				25/1	निजी	खेती	0.2730	□ भा फुचंद आर्चोय
		2 अंजार	(1) मेधपरबोरीची	107/2	निजी	खेती	0.2477	(1) दयाराम शामजी (2) भरत शामजी
				107/1	निजी	बिनखेती	0.6399	जयाबेन रतीलाल सोरठीया
				114/1	निजी	खेती	0.4380	गीरधारसिंग भैरवसिंग राठोड सजनकुंवर गीरधारीसिंग राठोड
				116	निजी	खेती	0.3396	(1) फकीरचंद किशोरलाल (2) योगेश फकीरचंद
				120	निजी	खेती	0.2851	रामजीभाई विरजीभाई भानुशाली
				121	निजी	बिनखेती	0.1854	जेराम नरसीह □ानुशाली
				241	निजी	खेती	0.6772	संजय तुलसीदास रुपाणी
				242	निजी	खेती	0.2292	(1) रमेश नोरतमललाल गुप्ता (2) महेश नोरतमललाल गुप्ता
				244	निजी	खेती	0.3506	(1) योगीनकुमार डायभाई पटेल (2) प्रहलादभाई शंभुभाई पटेल (3) नीमाबेन तलकचंदभाई मोढ (4) कमलेशकुमार प्रहलादभाई पटेल
				245	निजी	खेती	0.2665	(1) दिनेश नोरतमललाल गुप्ता (2) सुरेश नोरतमललाल गुप्ता
				246/3	निजी	खेती	0.2285	सोनी वेलुबेन कल्यानजी शांतिलाल कल्यानजी सोनी नविनचंद्र कल्यानजी सोनी पियुष कल्यानजी सोनी
				252	निजी	खेती	0.2209	सोनी वेलुबेन कल्यानजी शांतिलाल कल्यानजी सोनी नविनचंद्र कल्यानजी सोनी पियुष कल्यानजी सोनी
				258	निजी	खेती	0.5684	रेखाबेन देवेन्द्रसिंह
				259/1	निजी	खेती	0.3529	अशोककुमार भगवानजी माणक
				259/2	निजी	खेती	0.2661	भीखा गंगा डांगर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				259/3	निजी	खेती	0.2331	श्रीमति जयाबेन नविनचंद्र पुजारा सुशीलाबेन प्रविनभाई
				271/2	निजी	खेती	0.1172	(1) शाह जयेन्दे नानालाल (2) शाल रोहतीकुमार शातिलाल
				271/1	निजी	बिनखेती	1.1079	(1) भरत कान्तीलाल जेठवा (2) नीवर विनोदचंद शाह (3) गोविंदजी ओधवजी ठक्कर (4) निराली ते विमल संघवीनी पत्नी (5) श्रुती ते विशाल वोरानी पत्नी
				260/1	निजी	बिनखेती	0.0823	भाह मधुकान्त मोहनलाल भाटीबेन मधुकान्त
				251/2	निजी	खेती	0.2029	श्रीमति सुसान पेरुमल
				19	निजी	खेती	0.0157	(1) कान्तीलाल जीवराज (2) हीराबेन कान्तीलाल (3) जयेशकुमार कान्तीलाल
				44	निजी	खेती	0.2605	राम फोटुमल इशराणी
				43	निजी	खेती	0.1144	भीतलकुमार महेन्द्र शाल
				46/1	निजी	खेती	0.1514	सुरेन्द्र बदीलाल जींदाल
				47	निजी	खेती	0.1214	अनीलकुमार शशीशंकर अग्रवाल
				61	निजी	बिनखेती	0.0722	मेट्रीक्स इनवेन्शन प्रा. ली मुंबई
				119	निजी	खेती	0.1963	(1) महासुखभाई धनजीभाई पुजा (2) प्रदीप वाडीलाल संघवी (3) गीरीभा रतीलाल ठक्कर
				118	निजी	खेती	0.1476	(1) महासुखभाई धनजीभाई पुजा (2) प्रदीप वाडीलाल संघवी (3) गीरीभा रतीलाल ठक्कर
				117	निजी	खेती	0.4103	गीरधारीसिंग भैरवसिंग राठोड सजनकुंवर गीरधारीसिंग राठोड
				64	निजी	बिनखेती	0.0326	(1) राधेश्याम गुप्ता (2) विजेन्द्र गुप्ता
				65	निजी	बिनखेती	0.0550	वी.वी.एफ.ली. अधिकृत आर.बी.जोषी
				95	निजी	बिनखेती	0.0196	वीरेन्द्र भवानजी गाला
				114/2	निजी	खेती	0.1336	गीरधारीसिंग भैरवसिंग राठोड सजनकुंवर गीरधारीसिंग राठोड
				110	निजी	बिनखेती	0.6362	गीरधारीसिंग भैरवसिंग राठोड तथा सजनकुंवर गीरधारीसिंग (1) साजन कुंवर गीरधारीसिंग (2) फकीरचुद कीशोरीलाल बंसल (3) प्रदीप फकीरचंद बंसल (4) योगेश फकीरचंद बंसल
				99	निजी	खेती	0.0187	परमानंद चमनलाला शर्मा अशोक चमनलाला शर्मा विनोद चमनलाला शर्मा श्याम चमनलाला शर्मा प्रभात तथा ममता परमानंद रोहित तथा मोहित श्याम शर्मा अजय तथा राजु अशोक शर्मा नम्रता अरुन तथा वरुण विनोद शर्मा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(2) मेघपर कुमारडी	6/1	निजी	खेती	0.5875	मकलेश्वर महादेव वती पूजारी
				31	निजी	खेती	0.0018	धनश्याम बापुलाल शेट विरेन्द्र बापुलाल शेट जीगनेश बापुलाल शेट पुनमबेन धनश्याम शेट हीनाबेन विरेन्द्र शेट काश्मीराबेन जीगनेश शेट
				6/2	निजी	खेती	0.1216	मकलेश्वर महादेव वती पूजारी
				7	निजी	खेती	0.0553	मकलेश्वर महादेव वती पूजारी
				161/2	निजी	खेती	0.0156	वासणभाई नाराणभाई आहिर
				1	निजी	खेती	0.0007	लक्ष्मण रवा कोली विरम रवा कोली जेसंग रवा कोली नाराण रवा कोली वावीबेन रवा कोली रामजी रवा कोली रणछोड़ रवा कोली
			(3) अंजार	706/1	निजी	खेती	0.6315	अरवींदभाई माधवजीभाई
				969/2	निजी	खेती	0.5304	(1) हासुबेन हासम कोली (2) जयीश्रीबेन सुरेशभाई सोरठीया
				971/3	निजी	खेती	0.3185	ईश्वर रामजी कोली
				971/1	निजी	खेती	0.5838	ईश्वर रामजी कोली
				731/1	निजी	खेती	1.6218	अशोकभाई मनजीभाई बांभणीया दिनेशभाई मनजीभाई बांभणीया परषोत्तम मनजीभाई बांभणीया किरणभाई मनजीभाई बांभणीया
				706/2	निजी	खेती	0.5725	अरविंदभाई माधवजीभाई
				692/2	निजी	खेती	0.0755	मावजी कानजी हडीया खीमजी कानजी हडीया मावजी कानजी हडीया
				686	निजी	खेती	0.5452	वालीबेन शंभू बांभणीया
			(4) वीडो	9/1	निजी	खेती	1.3493	सोरठीया संखे कापड़ी शातीलाल मेधजीभाई
				10	निजी	खेती	0.3099	नाराण वालजी सोरठीया
				11	निजी	खेती	0.4653	जगदीश एन. अयाची
				66/2	निजी	खेती	0.6969	गोविंदभाई कानजीभाई हडीया
				66/1	निजी	खेती	1.1432	परषोत्तम लालुभाई पटेल
				101/6	निजी	खेती	1.1987	सफुराबेन जानमामद मांजोटी हाजी ईलीयास जानमामद दाउद जानमामद मांजोटी हारून जानमामद मांजोटी फकीरमामद जानमामद मांजोटी हलीमाबाई जानमामद मांजोटी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कच्छ				67	निजी	खेती	0.0101	रविन्द्र परषोत्तम पटेल
				101/2	निजी	खेती	0.4255	कान्तीलाल मेघजी
				12/1	निजी	खेती	0.1165	जगदीश एन. अयाची एच.यू.एफ जगदीश एन. अयाची
			(5) सीनुग्र	155/12	निजी	खेती	0.5630	ठाकर मंदिर ट्रस्ट
				155/2	निजी	खेती	0.0224	दशरथसिंह जखुभा जाडेजा
				100	निजी	खेती	0.6338	परषोत्तम मनजी बांभणीया दिनेश मनजी बांभणीया
				131/1	निजी	खेती	0.0184	बीजल भोजा हरीजन
				131/2	निजी	खेती	0.0244	बीजल भोजा हरीजन
				155/4	निजी	खेती	0.2223	जयसुखलाल मकनजी
				130/2	निजी	खेती	0.0687	सुशीलबेन परषोतम बलदानीया जयंतीलाल कानजीभाई हरीया
				101	निजी	खेती	0.4224	मनजी खेता बांभणीया अशोककमार मनजी बांभणीया निशांतकुमार रमेशभाई बांभणीया पारश रमेशभाई बांभणीया राज रमेशभाई बांभणीया किरण रमेशभाई बांभणीया दिनेशकुमार मनजी बांभणीया
			(6) खंभरा	197/1	निजी	खेती	0.7722	दिलुभा नरपतसिंह वाघेला
				203	निजी	खेती	0.1426	रनेहीलाल मूलचंद गोयल रेखा दिव्येशभाई बदानी
				200/2	निजी	खेती	0.3437	दिलुभा नरपतसिंह वाघेला
				201/2	निजी	खेती	0.3370	विरेन्द्र दिलुभा वाघेला
				198	निजी	खेती	0.3663	दिलहरबा दिलुभा वाघेला
				199	निजी	खेती	0.2163	दिलुभा नरपतसिंह वाघेला
			(7) खेडोई	309/2	निजी	खेती	0.1213	विरसिंह जालमसिंह जाडेजा
				309/1	निजी	खेती	0.2093	धीरजलाला नानजी पाटीदार
				303/1	निजी	खेती	0.1093	पाटीदार देवशी लधा छाभैया
				301/3	निजी	खेती	0.0583	नरेन्द्रसिंह वेलुभा मोडजी
				504/1	निजी	खेती	0.0572	महेन्द्रसिंह भाणजीभा वाघेला
				501	निजी	खेती	0.3175	(1) महेन्द्रसिंह भाणजीभा वाघेला (2) धर्मेन्द्रसिंह नरेन्द्रसिंह वाघेला (3) हर्षद भीखलाल सोरठीया (4) सुनील प्रेमजीभाई सोरठीया
				214/1	निजी	खेती	0.3738	करशनबा नरपतसिंह जाडेजा
				215/1	निजी	खेती	0.3629	रसीकलाल रामजी पाटीदार
				221/1	निजी	खेती	0.1273	गढवी राहुल देवीदान
				223/1	निजी	खेती	0.2110	मोहनबा राणुभा वेलुभा जाडेजा
				224/2	निजी	खेती	0.2479	नरपतसिंह वेलुभा जाडेजा
				225/2	निजी	खेती	0.5092	राजगौर हरसुखलाल रामजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				229/1	निजी	खेती	0.0710	साजनसिंह वेलुभा जाडेजा
				229/2	निजी	खेती	0.1237	जयोतीबेन नरेंद्रसिंह जाडेजा
				229/3	निजी	खेती	0.0616	चंद्रबा सजनसिंह जाडेजा
				284/4	निजी	खेती	0.2638	नरपतसिंह मंगुभा प्रभातसंग
				284/2	निजी	खेती	0.2445	चंदुलाल मणीशंकर आर्य
				284/1	निजी	खेती	0.3824	(1) जाडेजा हालुभा बचुभा (2) जाडेजा राजुभा बचुभा
				283	निजी	खेती	0.2575	किशोरसिंह प्रतापसिंह धनुभा दलाजी
				511	निजी	बिनखेती	0.4020	जाडेजा नारुभा मोबतसंग
				512/1	निजी	बिनखेती	0.1909	(1) नाउभा प्रेमजीभाई (2) खेडोई केलवणी मंडल नाउभा मेरजीभा
				513/3	निजी	खेती	0.3832	जोजा पोपटभा पताजी
				513/1-p	निजी	खेती	0.0143	भरतसिंह दाजीराजजी
				513/2-p	निजी	बिनखेती	0.0807	(1) जाडेजा महेन्द्रसिंह कल्याणसिंह (2) जाडेजा दिलीपसिंह कल्याणसिंह
				506-p	निजी	खेती	0.0515	जोजा पोपटभा पताजी
				510/2-p	निजी	खेती	0.0797	खेतुभा विरसिंह जाडेजा
				510/3-p	निजी	खेती	0.0836	खेतुभा विरसिंह जालमसिंह
				210/2-p	निजी	खेती	0.1246	दयाबा सुरुभा पोपटभा जाडेजा
			(8) भुवड	199/1	निजी	खेती	0.1194	आगरीया उमर जुसब आदम जुसब
				185	निजी	खेती	0.3614	नर्मदागीरी देवगर गुसाई रामदीकगीरी देवगर गुसाई कोकीलाबेन प्रविणगर गुसाई कीरीटगीरी देवगर गुसाई राजेन्द्रगीरी देवगर गुसाई जयेंद्रगीरी देवगर गुसाई
				186/2	निजी	खेती	0.3180	श्रीमति शांताबेन सामजीभाई आहिर
				187/2	निजी	खेती	0.2291	शितलबेन विजयभाई चावड़ा
				285/1	निजी	खेती	0.0861	अब्दुल याकुब आगरीया
				285/2	निजी	खेती	0.2672	बुटा अयुब
				284	निजी	खेती	0.1533	जरू रामभाई वेला जरू लखु भीमा जरू शंभु भीमा
				283	निजी	खेती	0.2673	गढीयातर ईस्माईल धुला जुसब धुला धटीयातर
				274	निजी	खेती	0.3786	जरू सामत रूडा हीरा
				273/2	निजी	खेती	0.2412	मजा रवा वीरा जरू
				273/1	निजी	खेती	0.2748	जेठवा खानजी संग्रामजी
				272/1	निजी	खेती	0.3906	रबारी करसन हीरा
				272/2	निजी	खेती	0.3831	शांताबेन सामजी आहिर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				270/1	निजी	खेती	0.3407	नाराण करसन जरु
				265/2	निजी	खेती	0.6760	जरु सामत म्याजर
				264	निजी	खेती	0.2211	शातिलाल अरजण मरंड
				192/2	निजी	खेती	0.0778	जरु दाना जीवण
				208/2	निजी	खेती	0.0929	आगरीया याकुब हाजी
				209/1	निजी	खेती	0.1026	जरु गोविंद रवा गंगा रवा पबा
				460/3	निजी	खेती	0.2700	जरु दिलीप तेजा
				695	निजी	खेती	0.1438	हरीजन देवा भचु
				684	निजी	खेती	2.0884	दादुभा मोबतसिंह जाडेजा
				150	निजी	खेती	0.5134	जयेन्द्रसिंह फतेसिंह जाडेजा हुशेन सीधीक बाबरीया
				151/1	निजी	खेती	0.3700	जरु नागदान मजा
				148	निजी	खेती	0.1314	जरु रघु करसन
				270/2	निजी	खेती	0.0052	हरी करसन जरु
			(9) चांदोडा	460/1	निजी	खेती	0.9450	धना रामजी ववेरा
				460/2	निजी	खेती	0.3763	रवा तेजा बकुत्रा
				461	निजी	खेती	0.1272	हमीर धना मरंड तेजा धना मरंड
				462/1	निजी	खेती	0.7082	लखु राख्या मरंड
				495	निजी	खेती	0.2452	राख्या तेजा हाजा मरंड
				494	निजी	खेती	0.2933	मरंड नाराण वाला जीवा रतीबाई जीवा लाखीबाई जीवा राजीबाई जीवा नाराण वाला मेगर वाला रामजीवाला शामजी वाला कंकुबेन वाला बबीबेन वाला



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				492	निजी	खेती	0.6360	समरथदान वाधजीभाई जूला पटेल सामजीभाई प्रेमजीभाई
				490/2	निजी	खेती	0.0973	गोविंदभाई करणाभाई
				490/1	निजी	खेती	0.1757	मोधीबेन नाराण देवराज नाराण रवाबेन नाराण राजीबेन नाराण जानीबेन नाराण
				489	निजी	खेती	0.0492	बाबु नाराण राधा नाराण मनला नाराण जानीबेन नाराण लाखीबेन नाराण मोधीबेन नाराण मांबिन नाराण बाबु धना वालेरा मरंड
				443	निजी	खेती	0.3606	देवात तेजा रूडा मरंड
				441/2	निजी	खेती	0.3715	रवा तेजा बकुत्रा
				274	निजी	खेती	0.4752	बचीबाई रामा
				271	निजी	खेती	0.3496	देवात तेजा रूडा मरंड
				270	निजी	खेती	0.3862	डाया तेजा मरंड
				252	निजी	खेती	0.2820	डाया देवा सेजा मरंड
				500/2	निजी	खेती	0.0638	देवराज रामजी वलेरा
				1/1	निजी	खेती	0.0785	रामा शंभु डांगर
				275/2	निजी	खेती	0.1956	अरजण धना मरंड
				222/2	निजी	खेती	0.1112	मगा देवात मरंड तेजा देवात मरंड धनीबेन करणा रघु करणा करसन करणा पचाण मजा रघु सेजा रामजी मेगर रूपीबाई सेज वालबाई सेजा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				222/1	निजी	खेती	0.0033	मगा देवात मरंड तेजा देवात मरंड धनीबेन करणा रघु करणा करसन करणा पचाण मजा रघु सेजा रामजी मेगर रूपीबाई सेजा वालबाई सेजा
				440	निजी	खेती	0.1118	भीडभंजन महादेव मंदिर वती काशीगर हरीगर
				2/2	निजी	खेती	0.2279	भीडभंजन महादेव मंदिर वती काशीगर हरीगर
				442	निजी	खेती	0.0422	मजा धना मरंड
				1/2	निजी	खेती	0.0605	तेजा रूडा मरंड
				533/3	निजी	खेती	0.0302	नाराण पुंजा मरंड मोधीबेन नाराण देवराज नाराण रवाबाई नाराण राजीबेन नाराण जानीबेन नाराण
				533/2	निजी	खेती	0.0325	मरंड करसन राख्या
				533/1	निजी	खेती	0.0591	मरंड करसन राख्या
				532/2	निजी	खेती	0.6944	मंगा गंगा खीमा मरंड
				532/3	निजी	खेती	0.0090	मेगर वाला मरंड
				497/1	निजी	खेती	0.0002	करसन राख्या मरंड
				497/2	निजी	खेती	0.0049	करसन राख्या मरंड
				497/3	निजी	खेती	0.0032	करसन राख्या मरंड
				497/4	निजी	खेती	0.0305	करसन राख्या मरंड
				497/5	निजी	खेती	0.0291	करसन राख्या मरंड
				497/6	निजी	खेती	0.0341	करसन राख्या मरंड
				497/7	निजी	खेती	0.0443	करसन राख्या मरंड
				63	निजी	खेती	0.2742	तेजा हाडा मरंड
				490/3	निजी	खेती	0.0416	मरंड करसन राख्या
				498	निजी	खेती	0.0081	रघु रवा सेजा

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th January, 2011

S.O. 45(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S. O. No. 2061(E), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.8A(Extn.) on the stretch of land from km 0.000 to km 38.000 (Kandla - Chandroda Section) in District Kachchh in the state of Gujarat;

And, whereas the substance of the said notification has been published in "Kutch Mitra" and "Gujarat Vaibhav", both dated the 08<sup>th</sup> October, 2010, under sub-section(3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same has been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further in exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the official Gazette the lands specified in the said Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.0.000 to Km.38.000 (Kandla-Chandroda Section) of the National Highway Number-8A (Extn.) in the State of Gujarat.

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of person interested
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).
1	Kachchh	1 Gandhidham	(1) MithiRohar	243/3	Pvt.	Non Agriculture	0.5976	Bhanuben Ratilal Morabiya, Varshaben Arvindkumar Joshi, DakshabenSanjay Shah, DhirenRatilalMobiya, Viren RatilalMorbiya,
				228	Pvt.	Non Agriculture	0.6272	Kirti Manji Patel,
				232/4	Pvt.	Non Agriculture	0.1844	Jakhu Bijal Virada, Mohmadali Gulamali Khoja
				232/3	Pvt.	Non Agriculture	0.1958	Jakhu Bijal Virada, Mohmadali Gulamali Khoja
				232/2	Pvt.	Non Agriculture	0.1836	(1) Jakhu Bijal Virada (2) Mohmadali Gulamali Khoja
		(2) Galpadar		129/23	Pvt.	Non Agriculture	0.8202	V.span pipe & Contruction
				26/5	Pvt.	Non Agriculture	0.6339	Narendrasinh Hetubha Jadeja
				29/1	Pvt.	Agriculture	0.0602	Mithu Urfe Devaji Dharmashi
				29/2	Pvt.	Agriculture	0.1489	(1)Bayamba Umedsang Jadeja (2)Baldevsinh Umedsang Jadeja (3) Dilipsinh Umedsang Jadeja (4) Jayendra Umedsang Jadeja
				83	Pvt.	Agriculture	0.3489	DhilaArjan Jasha
				88	Pvt.	Agriculture	0.3662	DhilaArjan Jasha
				89	Pvt.	Agriculture	0.3192	(1) Dhila Gopalbhai Jashabhai
				93	Pvt.	Agriculture	0.5634	(1) Vidhva Monghiben Ramji (2) SakhibenRamji (3) Lakhiben Ramji (4) Babubhai Ramji (5)Deviben Ramji (6) Hiralal Ramji (7) Trikam Ramji (8) Hareish Ramji (9)Devraj Ramji (10) Kanji Ramji
				92	Pvt.	Non Agriculture	0.3124	Hareishbhai Gopalbhai Dhila
				82	Pvt.	Agriculture	0.0227	Ruda Kana Virada
				98/3	Pvt.	Agriculture	0.5017	(1) Ashok Chamanlal Sharma (2) Vinod Chamanlal Sharma (3) Parmanandji Chamanlal Sharma
				98/P	Pvt.	Agriculture	0.0197	Ashokbhai Sundardas Agiya
				127/3	Pvt.	Agriculture	0.1642	Ravabhai Chaman, Jamnabai, Mangabhai Majmu
				129/19	Pvt.	Agriculture	0.0660	Kumar Budharmal
				129/18	Pvt.	Agriculture	0.1931	Rohit Morarji Shah and Kumar Budharmal
				129/P	Pvt.	Agriculture	0.4452	Rohit Morarji Shah
				129/P	Pvt.	Agriculture	0.3215	Lakhu Kana Virada
				129/P	Pvt.	Agriculture	0.3684	Dhana Kana Virada
				127/2	Pvt.	Agriculture	0.1079	Ahir Hamesh Dhamabhai
				127/1	Pvt.	Agriculture	0.3398	(1) Jadeja Pravinsinh Abhesinh (2) Jadeja Ranjitsinh Abhesinh
				26/2	Pvt.	Agriculture	0.0490	Vishalsinh Dilipsinh Jadeja
				25/2	Pvt.	Agriculture	0.2346	Pravinkumar Santilal, Sunikummar Santilal
				25/1	Pvt.	Agriculture	0.2730	Bhavesish Fulchand Acharya

(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).
		2. Anjar	(1) Meghpar Borichi	107/2	Pvt.	Agriculture	0.2477	(1) Dayaram Samji (2) Bharat Samji
				107/1	Pvt.	Non Agriculture	0.6399	Jayaben Ratilal Sorathiya
				114/1	Pvt.	Agriculture	0.4380	Girdharising Bhauravsing Rathod, Sajan kunvar Girdharising Rathod
				116	Pvt.	Agriculture	0.3396	(1) Phakirchand Kishorlal (2) Yogesh Phakirchand
				120	Pvt.	Agriculture	0.2851	Ramjibhai Virjibhai Bhanusali
				121	Pvt.	Non Agriculture	0.1854	Jeram Narshih Bhanushali
				241	Pvt.	Agriculture	0.6772	Sanjay Tulasidas Rupani
				242	Pvt.	Agriculture	0.2292	(1) Ramesh Nauratamlal Gupta (2) Mahesh Nauratamlal Gupta
				244	Pvt.	Agriculture	0.3506	(1) Yoginkumar Dayabhai Patel (2) Prahladbhai Sambhubhai Patel (3) Nimaben Talakchand Modha (4) Kaleshkumar Prahladbhai Patel
				245	Pvt.	Agriculture	0.2665	(1) Dinesh Nauratamlal Gupta (2) Suresh Nauratamlal Gupta
				246/3	Pvt.	Agriculture	0.2285	Soni Veluben Kalyanji, Shantilal Kalyanji Soni, Navinchandra Kalyanji Soni, Piyush Kalyanji Soni
				252	Pvt.	Agriculture	0.2209	Soni Veluben Kalyanji, Shantilal Kalyanji Soni, Navinchandra Kalyanji Soni, Piyush Kalyanji Soni
				258	Pvt.	Agriculture	0.5684	Rekhaben Devendrasinh
				259/1	Pvt.	Agriculture	0.3529	Ashokkumar Bhagvanji Manek
				259/2	Pvt.	Agriculture	0.2661	Bhikha Ganga Dangar
				259/3	Pvt.	Agriculture	0.2331	Smt. Jayaben Navinchandra Pujara & Sushilaben Pravinbhai.
				271/2	Pvt.	Agriculture	0.1172	(1) Shah Jayendra Nanalal (2) Shah Rohitkumar Santilal
				271/1	Pvt.	Non Agriculture	1.1079	(1) Bharat Kantilal Jethava (2) Nirav Vinodchandra Shah (3) Govindji Aodhavaji Thakkar (4) Nirali Te Vimal Sanghavi Wife (5) Shruti Te Vishal Vorani Wife
				260/1	Pvt.	Non Agriculture	0.0823	Shah Madhukant Mohanlal & Bhatiben Madhukant
				251/2	Pvt.	Agriculture	0.2029	Smt. Susan Perumal
				19	Pvt.	Agriculture	0.0157	(1) Kantilal Jivraj (2) Hiraben Kantilal (3) Jayesh Kantilal
				44	Pvt.	Agriculture	0.2605	Ram Photumal Isharani
				43	Pvt.	Agriculture	0.1144	Sitalkumar Mahendra Shah
				46/1	Pvt.	Agriculture	0.1514	Surendra Badrilal Jindal
				47	Pvt.	Agriculture	0.1214	Anilkumar Sashisankar Agrawal
				61	Pvt.	Non Agriculture	0.0722	Matrix Invension Pvt. Ltd.- Mumbai
				119	Pvt.	Agriculture	0.1963	(1) Mahasukhbhai Dhanjibhai Punja (2) Pradip Vadilal Sanghavi (3) Girish Ratilal Thakkar
				118	Pvt.	Agriculture	0.1476	(1) Mahasukhbhai Dhanjibhai Punj (2) Pradip Vadilal Sanghavi (3) Girish Ratilal Thakkar
				117	Pvt.	Agriculture	0.4103	Girdharising Bhauravsing Rathod, Sajan kunvar Girdharising Rathod
				64	Pvt.	Non Agriculture	0.0326	(1) Radhesyam Gupta (2) Vijendra Gupata
				65	Pvt.	Non Agriculture	0.0550	V.V.F. Ltd. Authorised R.B. Joshi
				95	Pvt.	Non Agriculture	0.0196	Virendra Bhavanji Gala

(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).
				114/2	Pvt.	Agriculture	0.1336	Girdharising Bhauravsing Rathod, Sajan kunvar Girdharising Rathod
				110	Pvt.	Non Agriculture	0.6362	Girdharising Bhauravsing Rathod And Sajankevargir (2) Sajankuvar Girdharising (1) Phakirchand Kishorlal Bansal (2) Pradip Phakirchand Bansal (3) Yogesh Phakirchand Bansal
				99	Pvt.	Agriculture	0.0187	Parmanand Chamanlala Sharma, Ashok Chamanlal Sharma, Vinod Chamanlala Sharma, Shyam Chamanlal Sharma, Prabhat & Mamta Parmanand, Rohit & Mohit Shyam Sharma, Ajay & Raju Ashok Shirma, Namrata Arun & Varun Vinod Shirma
			(2) Meghpar Kumbharadi	6/1	Pvt.	Agriculture	0.5875	Maklshvar Mahadev vati pujari
				31	Pvt.	Agriculture	0.0018	Ghanshyam Bapulal Seth Virendra Bapulal Seth Jignesh Bapulal Seth Poonamben Ghanshaya Seth Hinaben Virendra Seth Kashamiraben Jignesh Seth
				6/2	Pvt.	Agriculture	0.1216	Maklshvar Mahadev vati pujari
				7	Pvt.	Agriculture	0.0553	Maklshvar Mahadev vati pujari
				161/2	Pvt.	Agriculture	0.0156	Vasanbhai Naranbhai Ahir
				1	Pvt.	Agriculture	0.0007	Laxman Rava Koli Viram Rava Koli Jeshang Rava Koli Naran Rava Koli Vaviben Rava Koli Ramji Rava Koli Ranchod Rava Koli
			(3) Anjar	706/1	Pvt.	Agriculture	0.6315	Arvindbhai Madhvajibhai
				969/2	Pvt.	Agriculture	0.5304	(1) Hasube Hasam Koli (2) Jayshriben Sureshbhai Sorathiya
				971/3	Pvt.	Agriculture	0.3185	Ishavar Ramji Koli
				971/1	Pvt.	Agriculture	0.5838	Ishavar Ramji Koli
				731/1	Pvt.	Agriculture	1.6218	Ashokbhai Manjibhai Bambhadia Dineshbhai Manjibhai Bambhadia Parshatam Manjibhai Bambhadia Kiranbhai Manjibhai Bambhadia
				706/2	Pvt.	Agriculture	0.5725	Arvindbhai Madhvajibhai
				692/2	Pvt.	Agriculture	0.0755	Mavji Kanji Hadia Khimji Kanji Hadia Mavji Kanji Hadia
				686	Pvt.	Agriculture	0.5452	Valiben Shambhu Bambhadia
			(4) Vidi	9/1	Pvt.	Agriculture	1.3493	Sorthia Sankhe Kapdi Shantilal Meghajibhai
				10	Pvt.	Agriculture	0.3099	Naran Valji Sorthia
				11	Pvt.	Agriculture	0.4653	Jaghdish N. Ayachi
				66/2	Pvt.	Agriculture	0.6969	Govindbhai Kanjibhai Hadia
				66/1	Pvt.	Agriculture	1.1432	Parshotam Lalubhai Patel
				101/6	Pvt.	Agriculture	1.1987	Safuraben Janmamad Manjothi Haji Ilyash Janmamad Daoud Janmamad Manjothi Harun Janmamad Manjothi Fakirmamad Janmamad Manjothi Halimabai Janmamad Manjothi
				67	Pvt.	Agriculture	0.0101	Ravindra Parshotam Patel
				101/2	Pvt.	Agriculture	0.4255	Kantilal Meghji
				12/1	Pvt.	Agriculture	0.1165	Jaghdish N. Ayachii H.U.F Jaghdish N. Ayachii

(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).
			(5) Sinugra	155/12	Pvt.	Agriculture	0.5630	Thakar Temple Trust
				155/2	Pvt.	Agriculture	0.0224	Dasharathsigh Jakhubha Jadeja
				100	Pvt.	Agriculture	0.6338	Parshotam Manji Bambhadia Dinesh Manji Bambhadia
				131/1	Pvt.	Agriculture	0.0184	Bijal Bhoja Harijan
				131/2	Pvt.	Agriculture	0.0244	Bijal Bhoja Harijan
				155/4	Pvt.	Agriculture	0.2223	Jayshukhlal Makanji
				130/2	Pvt.	Agriculture	0.0687	(1) Sushilaben Parshottam Baldaniya (2) Jayantilal Kanjibhai Hariya
				101	Pvt.	Agriculture	0.4224	Manji Kheta Bambhadia Ashokkumar Manji Bambhadia Nishant Rameshbhai Bambhadia Paras Rameshbhai Bambhadia Raj Rameshbhai Bambhadia Kiran Rameshbhai Bambhadia Dineshkumar Manji Bambhadia
			(6) Khambhra	197/1.	Pvt.	Agriculture	0.7722	Dilubha Narpatsigh Vaghela
				203	Pvt.	Agriculture	0.1426	Snehilal Moolchand Goyal Rekha Divyeshbhai Badani
				200/2	Pvt.	Agriculture	0.3437	Dilubha Narpatsigh Vaghela
				201/2	Pvt.	Agriculture	0.3370	Virendrasigh Dilubha Vaghela
				198	Pvt.	Agriculture	0.3663	Dilharba Dilubha Vaghela
				199	Pvt.	Agriculture	0.2163	Dilubha Narpatsigh Vaghela
			(7) Khedoi	309/2	Pvt.	Agriculture	0.1213	Virsinh Jalamsinh Jadeja
				309/1	Pvt.	Agriculture	0.2093	Dhirajlal Nanji Patidar
				303/1	Pvt.	Agriculture	0.1093	Patidar Devashi Ladha Chhabheya
				301/3	Pvt.	Agriculture	0.0583	Narendrasinh Velubha Modaji
				504/1	Pvt.	Agriculture	0.0572	(1) Mahedrasinh Bhanjibha Vaghela
				501	Pvt.	Agriculture	0.3175	(1) Mahendrasinh Bhanjibha Vaghela (2) Dharmndrasinh Narendrasinh Vaghela (3) Harshadbhikhalal Sorathiya (4) Sunil Premjibhai Sorathiya
				214/1	Pvt.	Agriculture	0.3738	Karshanba Narpatsinh Jadeja
				215/1	Pvt.	Agriculture	0.3629	Rasiklal Ramji Patidar
				221/1	Pvt.	Agriculture	0.1273	Gadhavi Rahul Devidan
				223/1	Pvt.	Agriculture	0.2110	Mohanba Ranubha Velubha Jadeja
				224/2	Pvt.	Agriculture	0.2479	(1) Narpatsinh Velubha Jadeja
				225/2	Pvt.	Agriculture	0.5092	Rajgor Harsukhlal Ramji
				229/1	Pvt.	Agriculture	0.0710	Sajansinh Velubha Jadeja
				229/2	Pvt.	Agriculture	0.1237	Jyotiben Narendrasinh Jadeja
				229/3	Pvt.	Agriculture	0.0616	Chandrabha Sajansinh Jadeja
				284/4	Pvt.	Agriculture	0.2638	Narpatsing Mangubha Prabhatsang
				284/2	Pvt.	Agriculture	0.2445	Chandulal Manisankar Aray
				284/1	Pvt.	Agriculture	0.3824	(1) Jadeja Halubha Bhachubha (2) Jadeja Rajubha Bachubha
				283	Pvt.	Agriculture	0.2575	(1) Kishorsinh Pratapsinh (2) Dhanubha Dalaji
				511	Pvt.	Non Agriculture	0.4020	Jadeja Narubha Mobatsang
				512/1	Pvt.	Non Agriculture	0.1909	(1) Narubha Premjibhai (2) Khadoi Kelvani Mandal Narubha Merjibha
				513/3	Pvt.	Agriculture	0.3832	Joja Popatbha Pataji
				513/1-p		Agriculture	0.0143	Bharatsinh Dajiraji
				513/2-p	Pvt.	Non agriculture	0.0807	(1) Jadeja Mahendrasinh Kalyansinh (2) Jadeja Dilipsinh Kalyansinh
				506-p	Pvt.	Agriculture	0.0515	Joja Popatbha Pataji
				510/2-p	Pvt.	Agriculture	0.0797	Khetubha Virasinh Jadeja
				510/3-p	Pvt.	Agriculture	0.0836	Khetubha Virsinh Jalamsinh
				210/2-p	Pvt.	Agriculture	0.1246	Dayaba Surubha Popatbha Jadeja
			(8) Bhuvad	199/1	Pvt.	Agriculture	0.1194	Agaria Umar Jushab Adam Jushab

(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).
				185	Pvt.	Agriculture	0.3614	Narmadagiri Devgar Gushai Ramdikgiri Devgar Gushai Kokilaben Pravingar Gushai Kiritgiri Devgar Gushai Rajendragiri Devgar Gushai Jayendragiri Devgar Gushai
				186/2	Pvt.	Agriculture	0.3180	Smt. Shantaben Shamjibhai Ahir
				187/2	Pvt.	Agriculture	0.2291	Sheetalben Vijaybhai Chavada
				285/1	Pvt.	Agriculture	0.0861	Abdul Yakub Agaria
				285/2	Pvt.	Agriculture	0.2672	Butha Ayub
				284	Pvt.	Agriculture	0.1533	Zaru Rambhaiben Vela Zaru Lakhu Bhima Zaru Shambhu Bhima
				283	Pvt.	Agriculture	0.2673	Gadhiyatar Ishamail Dhula Jushab Dhula Gadhiyatar
				274	Pvt.	Agriculture	0.3786	Zaru Samat Ruda Hira
				273/2	Pvt.	Agriculture	0.2412	Maja Rava Vira Jaru
				273/1	Pvt.	Agriculture	0.2748	Jethava Khanji Sagaramji
				272/1	Pvt.	Agriculture	0.3906	Rabari Karshan Hira
				272/2	Pvt.	Agriculture	0.3831	Shantaben Shamji Ahir
				270/1	Pvt.	Agriculture	0.3407	Naran Karshan Jaru
				265/2	Pvt.	Agriculture	0.6760	Jaru Shamat Myajar
				264	Pvt.	Agriculture	0.2211	Shantilal Arjan Marand
				192/2	Pvt.	Agriculture	0.0778	Jaru Dana Jivan
				208/2	Pvt.	Agriculture	0.0929	Agariia Yakub haji
				209/1	Pvt.	Agriculture	0.1026	Zaru Govind Rava Ganga Rava Paba
				460/3	Pvt.	Agriculture	0.2700	Jaru Dilip Teja
				695	Pvt.	Agriculture	0.1438	Harijan Deva Bhachu
				684	Pvt.	Agriculture	2.0884	Dadubha Mobatsigh Jadeja
				150	Pvt.	Agriculture	0.5134	Jayendrasigh Fatesigh Jadeja Husen Sidhik Babaria
				151/1	Pvt.	Agriculture	0.3700	Jaru Nagdan Maja
				148	Pvt.	Agriculture	0.1314	Jaru Radhu Karshan
				270/2	Pvt.	Agriculture	0.0052	Hari Karshan Jaru
			(9) Chandroda	460/1	Pvt.	Agriculture	0.9450	Dhana Ramji Vabera
				460/2	Pvt.	Agriculture	0.3763	Rava Teja Bakutra
				461	Pvt.	Agriculture	0.1272	Hamir Dhana Marand Teja Dhana Marand
				462/1	Pvt.	Agriculture	0.7082	Lakhu Rakhaya Marand
				495	Pvt.	Agriculture	0.2452	Rakhya Teja Haja Marand
				494	Pvt.	Agriculture	0.2933	Marand Naran Vala Jeeva Ratibai Jeeva Lakhibai Jeeva Rajibai Jeeva Naran Vala Megar Vala Ramji Vala Shamji Vala Kankuben Vala Babiben Vala
				492	Pvt.	Agriculture	0.6360	Samrathdan Vaghjibhai Zula Patel Shamjibhai Premjibhai
				490/2	Pvt.	Agriculture	0.0973	Govindbhai Karnabhai
				490/1	Pvt.	Agriculture	0.1757	Mongiben Naran Devraj Naran Ravaben Naran Rajiben Naran Janiben Naran



(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).
				489	Pvt.	Agriculture	0.0492	Babu Naran Radha Naran Mania Naran Janiben Naran Lakhiben Naran Mongiben Naran Mandiben Naran Babu Dhana Valera Marand
				443	Pvt.	Agriculture	0.3606	Devat Teja Ruda Marand
				441/2	Pvt.	Agriculture	0.3715	Rava Teja Bakutra
				274	Pvt.	Agriculture	0.4752	Bachibai Rama
				271	Pvt.	Agriculture	0.3496	Devat Teja Ruda Marand
				270	Pvt.	Agriculture	0.3862	Daya Teja Marand
				252	Pvt.	Agriculture	0.2820	Daya Deva Seja Marand
				500/2	Pvt.	Agriculture	0.0638	Devraj Ramji Valera
				1/1	Pvt.	Agriculture	0.0785	Rama Shambhu Dangar
				275/2	Pvt.	Agriculture	0.1956	Arjan Dhana Marand
				222/2	Pvt.	Agriculture	0.1112	Maga Devat Marand Teja Devat Marand Dhaniben Karana Raghu Karana Karshan Karana Pachan Maja Raghu Seja Ramji Megar Roopibai Seja Valbai Seja
				222/1	Pvt.	Agriculture	0.0033	Maga Devat Marand Teja Devat Marand Dhaniben Karana Raghu Karana Karshan Karana Pachan Maja Raghu Seja Ramji Megar Roopibai Seja Valbai Seja
				440	Pvt.	Agriculture	0.1118	Bhiddhanjan Mahadev Temple Vati Kashigar Harigar
				2/2	Pvt.	Agriculture	0.2279	Bhiddhanjan Mahadev Temple Vati Kashigar Harigar
				442	Pvt.	Agriculture	0.0422	Maja Dhana Marand
				1/2	Pvt.	Agriculture	0.0605	Teja Ruda Marand
				533/3	Pvt.	Agriculture	0.0302	Naran Punja Marand Mogiben Naran Devraj Naran Ravabai Naran Rajiben Naran Janiben Naran

(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).
				533/2	Pvt.	Agriculture	0.0325	Marand Karshan Rakhaya
				533/1	Pvt.	Agriculture	0.0591	Marand Karshan Rakhaya
				532/2	Pvt.	Agriculture	0.6944	Manga Ganga Khima Marand
				532/3	Pvt.	Agriculture	0.0090	Megar Vala Marand
				497/1	Pvt.	Agriculture	0.0002	Karsan Rakhaya Marand
				497/2	Pvt.	Agriculture	0.0049	Karsan Rakhaya Marand
				497/3	Pvt.	Agriculture	0.0032	Karsan Rakhaya Marand
				497/4	Pvt.	Agriculture	0.0305	Karsan Rakhaya Marand
				497/5	Pvt.	Agriculture	0.0291	Karsan Rakhaya Marand
				497/6	Pvt.	Agriculture	0.0341	Karsan Rakhaya Marand
				497/7	Pvt.	Agriculture	0.0443	Karsan Rakhaya Marand
				63	Pvt.	Agriculture	0.2742	Teja Hada Marand
				490/3	Pvt.	Agriculture	0.0416	Marand Karsan Rakhaya
				498	Pvt.	Agriculture	0.0081	Raghu Rava Seja

[F.No. NIHA/BOT/DBFO/11012/11/2007]

S. NARENDRA, Director